



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2013/माघ 10, 1934

No. 48]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2013/MAGHA 10, 1934

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2013

सा.का.नि. 54(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार गुजरात सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2013 होगा।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "गुजरात" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"गुजरात

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	162
सरकार के मुख्य सचिव	1
सरकार के अपर मुख्य सचिव	4
सरकार के प्रधान सचिव	9
वाणिज्यिक कर आयुक्त	1
प्रधान रजिस्ट्रेंट आयुक्त, नई दिल्ली	1
मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	1
महा निदेशक, एसपीआईपीए	1
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात राज्य	1
ग्रामीण विकास आयुक्त	1
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	1
सरकार के सचिव	25
विकास आयुक्त	1
उद्योग आयुक्त	1

निपटान आयुक्त एवं भूमि अभिलेख निदेशक	1
आयुक्त, भूमि संधार	1
आयुक्त, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग	1
आयुक्त परिवहन	1
आयुक्त उच्च शिक्षा	1
आयुक्त, मत्स्य पालन	1
आयुक्त, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा	1
आयुक्त, महिला एवं बाल विकास	1
आयुक्त भू-विज्ञान एवं खनन	1
राज्यपाल के प्रधान सचिव	1
विशेष आयुक्त, वाणिज्यिक कर	1
आयुक्त, विद्यालय	1
मुख्यमंत्री के सचिव	1
श्रम आयुक्त	1
आयुक्त, लोक उद्यम ब्यूरो	1
सूचना आयुक्त	1
राहत आयुक्त	1
आयुक्त, जनजातीय विकास	1
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा	1
आयुक्त, राजस्व निरीक्षण	1
आयुक्त, युवा खेल तथा युवा सेवाएं	1
राज्यपाल के सचिव	1
सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव	25
कलैक्टर्स	26
जिला विकास अधिकारी	26
निदेशक, नगरपालिका	1
रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	1
आयुक्त, मनोरंजन कर	1
उप महानिदेशक, एसपीआईपीए	1
निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण	1
निदेशक, नागरिक अपूर्ति	1
निदेशक, अनुसूचित जाति कल्याण	1
अपर आयुक्त, उद्योग	1
अपर विकास आयुक्त	1
अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर	1
अपर ग्रामीण विकास आयुक्त	1
स्टाम्पस अधीक्षक एवं पंजीकरण महानिरीक्षक	1
आयुक्त, मिड-डे-मील	1
निदेशक, आईसीडीएस	1

	अपर ग्रामीण विकास आयुक्त (एमएनआरईजीए)	1
1.	कुल वरिष्ठ इयूटी पद	162
2.	सीडीआर उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	64
3.	एसडीआर उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	40
4.	टीआर उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	5
5.	एलआर और जेआर उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	26
6.	पदोन्नति पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33 1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं	90
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	207
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	297

[सं. 11031/5/2011-अ.भा.से-II (क)]

दीप्ति उमाशंकर, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी (1) : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, गुजरात संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 260 थी।

टिप्पणी (2) : मुख्य विनियम दिनांक 22 अक्टूबर, 1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, ये गुजरात संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि.संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख	क्र.सं.	सा.का.नं.सं.	तारीख
1	505	29.04.1960	13	639	11.07.1981
2	979	27.08.1960	14	37	18.01.1986
3	226	24.02.1962	15	190	26.03.1988
4	163	02.02.1963	16	419	17.06.1989
5	435	14.03.1964	17	271	06.06.1992
6	1715	27.11.1964	18	654 (अ)	15.10.1993
7	1275	04.09.1965	19	297	25.06.1994
8	1231	13.08.1966	20	319 (अ)	31.03.1995
9	1116	29.07.1967	21	754 (अ)	04.11.1999
10	308	08.03.1975	22	140	29.03.2000
11	1251	21.10.1978	23	706 (अ)	16.11.2006
12	221 (अ)	21.04.1980	24	188 (अ)	24.03.2009

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2013

G.S.R. 54(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Gujarat**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:-

1. (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of cadre Strength) Amendment Regulations, 2013.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "**Gujarat**" and the entries occurring there under, the following shall be substituted namely:-

"Gujarat

	Senior Duty Posts under the State Government	162
	Chief Secretary to Government	1
	Additional Chief Secretary to the Government	4
	Principal Secretary to Government	9
	Commissioner of Commercial Tax	1
	Principal Resident Commissioner, New Delhi	1
	Chief Executive Officer, Gujarat State Disaster Management Authority	1
	Director General, SPIPA	1
	Chief Electoral Officer, Gujarat State	1
	Commissioner of Rural Development	1
	Principal Secretary to Chief Minister	1
	Secretary to Government	25
	Development Commissioner	1
	Industries Commissioner	1

	Settlement Commissioner & Director of Land Records	1
	Commissioner of Land Reforms	1
	Commissioner of Cottage and Rural Industries	1
	Commissioner of Transport	1
	Commissioner of Higher Education	1
	Commissioner of Fisheries	1
	Commissioner of Health, Medical Services & Medical Education	1
	Commissioner of Women & Child Development	1
	Commissioner of Geology & Mining	1
	Principal Secretary to Governor	1
	Special Commissioner of Commercial Tax	1
	Commissioner of Schools	1
	Secretary to Chief Minister	1
	Commissioner of Labour	1
	Commissioner Bureau of Public Enterprises	1
	Commissioner of Information	1
	Commissioner of Relief	1
	Commissioner of Tribal Development	1
	Commissioner of Technical Education	1
	Revenue Inspection Commissioner	1
	Commissioner, Youth, Sports and Youth Services	1
	Secretary to Governor	1
	Additional/Joint/Deputy Secretary to Govt.	25
	Collectors	26
	District Development Officer	26
	Director of Municipalities	1
	Registrar of Co-operative Societies	1
	Commissioner, Entertainment Tax	1
	Deputy Director General, SPIPA	1
	Director of Employment & Training	1
	Director of Civil Supplies	1
	Director of Scheduled Castes Welfare	1
	Additional Commissioner of Industries	1
	Additional Development Commissioner	1
	Additional Commissioner of Commercial Tax	1
	Additional Rural Development Commissioner	1
	Superintendent of Stamps & Inspector General of Registration	1

423 4013-2

	Commissioner of Mid-day Meals	1
	Director, ICDS	1
	Additional Rural Development Commissioner (MNREGA)	1
1	Total Senior Duty Posts	162
2	CDR not exceeding 40% of 1 above	64
3	SDR not exceeding 25% of 1 above	40
4	TR not exceeding 3.5% of 1 above	5
5	LR & JR not exceeding 16.5% of 1 above	26
6	Promotion Posts 33 1/3% of 1,2,3 & 4 above	90
7	DR Posts (1+2+3+4+5-6 above)	207
	Total Authorized Strength	297⁹

[No. 11031/5/2011-AIS-II (A)]

DEEPTI UMASHANKAR, Director (Services)

Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Gujarat Cadre was 260.

Note (2): The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Gujarat Cadre by the following GSR Nos. and dates:

Sl.No.	GSR Nos.	DATE	Sl.No.	GSR Nos.	DATE
1	505	29.04.1960	13	639	11.07.1981
2	979	27.08.1960	14	37	18.01.1986
3	226	24.02.1962	15	190	26.03.1988
4	163	02.02.1963	16	419	17.06.1989
5	435	14.03.1964	17	271	06.06.1992
6	1715	27.11.1964	18	654 (E)	15.10.1993
7	1275	04.09.1965	19	297	25.06.1994
8	1231	13.08.1966	20	319 (E)	31.03.1995
9	1116	29.07.1967	21	754 (E)	04.11.1999
10	308	08.03.1975	22	140	29.03.2000
11	1251	21.10.1978	23	706 (E)	16.11.2006
12	221 (E)	21.04.1980	24	188 (E)	24.03.2009

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2013

सा.का.नि. 55(अ).— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, गुजरात सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2013 होगा ।
(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :-

“अनुसूची II-भाग क” में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों की तालिका में, प्रथम कॉलम में आने वाली “गुजरात” प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“गुजरात

सरकार के मुख्य सचिव	80,000/- रु. (नियत)
सरकार के अपर मुख्य सचिव	80,000/- रु. (नियत)
सरकार के प्रधान सचिव	एचएजी स्केल – Rs. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
वाणिज्यिक कर आयुक्त	एचएजी स्केल – Rs. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
प्रधान रेजिडेंट आयुक्त, नई दिल्ली	एचएजी स्केल – Rs. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	एचएजी स्केल – Rs. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
महा निदेशक, एसपीआईपीए	एचएजी स्केल – Rs. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात राज्य	एचएजी स्केल – Rs. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
ग्रामीण विकास आयुक्त	एचएजी स्केल – Rs. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	एचएजी स्केल – Rs. 67000/- (वार्षिक वृद्धि

	3% की दर पर) 79000/-
सरकार के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
विकास आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
उद्योग आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
निपटान आयुक्त एवं भूमि अभिलेख निदेशक	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, भूमि सधार	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त परिवहन	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त उच्च शिक्षा	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, मत्स्य पालन	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, महिला एवं बाल विकास	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त भू-विज्ञान एवं खनन	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
राज्यपाल के प्रधान सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
विशेष आयुक्त, वाणिज्यिक कर	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, विद्यालय	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
मुख्यमंत्री के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
श्रम आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, लोक उद्यम ब्यूरो	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
सूचना आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
राहत आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, जनजातीय विकास	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, राजस्व निरीक्षण	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, युवा खेल तथा युवा सेवाएं	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
राज्यपाल के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0

(ख) " अनुसूची II- भाग ख" में वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में 'गुजरात' के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव
कलैक्टर्स
जिला विकास अधिकारी
निदेशक, नगरपालिका
रजिस्ट्रार, सहकारी समिति
आयुक्त, मनोरंजन कर
उप महानिदेशक, एसपीआईपीए

निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण
 निदेशक, नागरिक आपूर्ति
 निदेशक, अनुसूचित जाति कल्याण
 अपर आयुक्त, उद्योग
 अपर विकास आयुक्त
 अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर
 अपर ग्रामीण विकास आयुक्त
 स्टाम्पस अधीक्षक एवं पंजीकरण महानिरीक्षक
 आयुक्त, मिड-डे-मील
 निदेशक, आईसीडीएस
 अपर ग्रामीण विकास आयुक्त (एमएनआरईजीए) ”

[सं. 11031/5/2011-अ.भा.से-II (ख)]

दीप्ति उमाशंकर, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मुख्य नियम, 20.03.2008 की जीएसआर संख्या 213(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में जीएसआर संख्या 665(अ), दिनांक 19.09.2008, 123(अ) दिनांक 15.04.2009, जीएसआर सं.542(अ) दिनांक 21.07.2009, जीएसआर सं.572(अ) दिनांक 13.08.2009, जीएसआर सं. 820 दिनांक 12.11.2009, जीएसआर सं. 72 (अ) दिनांक 10.02.2010, जीएसआर सं.102 (अ) दिनांक 25.2.2010, जीएसआर सं. 191 (अ) दिनांक 12.03.2010, जीएसआर सं. 298 (अ) दिनांक 08.04.2010, जीएसआर सं. 397 (अ) दिनांक 11.05.2010, जीएसआर सं. 404 (अ) दिनांक 13.05.2010, जीएसआर सं. 413 (अ) दिनांक 17.05.2010, जीएसआर सं. 432 (अ) दिनांक 20.05.2010, जीएसआर सं. 434 (अ) दिनांक 20.05.2010, जीएसआर सं. 451 (अ) दिनांक 26.05.2010, जीएसआर सं. 689 (अ) दिनांक 19.08.2010, जीएसआर सं. 836 (अ) दिनांक 13.10.2010, जीएसआर सं. 899(अ) दिनांक 09.11.2010, जीएसआर सं. 954(अ) दिनांक 06.12.2010, जीएसआर सं. 920(अ) दिनांक 30.12.2011, जीएसआर सं. 922(अ) दिनांक 30.12.2011 जीएसआर सं. 94(अ) दिनांक 16.02.2012, जीएसआर सं. 115(अ) दिनांक 28.03.2012, जीएसआर सं. 325(अ) दिनांक 26.04.2012 और जीएसआर सं. 941(अ) दिनांक 28.12.2012.. द्वारा संशोधित किए गए ।

423 4713-3

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2013

G.S.R. 55(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Gujarat hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely: -

1. (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 2013.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007:-

In "Schedule II-Part A" posts carrying pay above the senior scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments", in the table, for the entry 'Gujarat' occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:

"GUJARAT

Chief Secretary to Government	Rs.80000/-(fixed)
Additional Chief Secretary to the Government	Rs.80000/-(fixed)
Principal Secretary to Government	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment @ 3%) 79000/-
Commissioner of Commercial Tax	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment @ 3%) 79000/-
Principal Resident Commissioner, New Delhi	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment @ 3%) 79000/-
Chief Executive Officer, Gujarat State Disaster Management Authority	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment @ 3%) 79000/-
Director General, SPIPA	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment @ 3%) 79000/-
Chief Electoral Officer, Gujarat State	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment @ 3%) 79000/-
Commissioner of Rural Development	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment @ 3%) 79000/-
Principal Secretary to Chief Minister	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment @ 3%) 79000/-

Secretary to Government	PB-4 + GP Rs.10000/-
Development Commissioner	PB-4 + GP Rs.10000/-
Industries Commissioner	PB-4 + GP Rs.10000/-
Settlement Commissioner & Director of Land Records	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner of Land Reforms	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner of Cottage and Rural Industries	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner of Transport	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner of Higher Education	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner of Fisheries	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner of Health, Medical Services & Medical Education	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner of Women & Child Development	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner of Geology & Mining	PB-4 + GP Rs.10000/-
Principal Secretary to Governor	PB-4 + GP Rs.10000/-
Special Commissioner of Commercial Tax	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner of Schools	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary to Chief Minister	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner of Labour	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner Bureau of Public Enterprises	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner of Information	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner of Relief	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner of Tribal Development	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner of Technical Education	PB-4 + GP Rs.10000/-
Revenue Inspection Commissioner	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner, Youth, Sports and Youth Services	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary to Governor	PB-4 + GP Rs.10000/-

(b) In "Schedule II - Part B" Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special allowance in addition to pay, for the entries occurring under 'Gujarat', the following shall be substituted, namely:-

Additional/Joint/Deputy Secretary to Govt.
Collectors
District Development Officer
Director of Municipalities
Registrar of Co-operative Societies
Commissioner, Entertainment Tax
Deputy Director General, SPIPA
Director of Employment & Training
Director of Civil Supplies
Director of Scheduled Castes Welfare
Additional Commissioner of Industries
Additional Development Commissioner
Additional Commissioner of Commercial Tax

Additional Rural Development Commissioner
Superintendent of Stamps & Inspector
General of Registration
Commissioner of Mid-day Meals
Director, ICDS
Additional Rural Development Commissioner
(MNREGA)''

[No. 11031/5/2011-AIS-II (B)]

DEEPTI UMASHANKAR, Director (Services)

Note: The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, vide GSR No.213(E) dated the 20.03.2008 and subsequently were amended vide GSR No.665(E) dated 19.09.2008, 123 (E) dated 15.04.2009, GSR No.542(E) dated 21.07.2009, GSR No.572(E) dated 13.08.2009, GSR No. 820 dated 12.11.2009, GSR No. 72 (E) dated 10.02.2010, GSR No.102 (E) dated 25.2.2010, GSR No. 191 (E) dated 12.03.2010, GSR No. 298 (E) dated 08.04.2010, GSR No. 397 (E) dated 11.05.2010, GSR No. 404 (E) dated 13.05.2010, GSR No. 413 (E) dated 17.05.2010, GSR No. 432 (E) dated 20.05.2010, GSR No. 434 (E) dated 20.05.2010, GSR No. 451 (E) dated 26.05.2010, GSR No. 689 (E) dated 19.08.2010, GSR No. 836 (E) dated 13.10.2010, GSR No. 899(E) dated 09.11.2010, GSR No. 954(E) dated 06.12.2010, GSR No. 920(E) dated 30.12.2011, GSR No. 922(E) dated 30.12.2011 GSR No. 94(E) dated 16.02.2012, GSR No. 115(E) dated 28.03.2012, GSR No. 325(E) dated 26.04.2012 and GSR No.941(E) dated 28.12.2012..